

**ICSSR-sponsored Longitudinal Project
On**

Panchayat Governance and Gender Equity: A Longitudinal Study of Aspirational and Non-Aspirational Districts of Uttar Pradesh

Stakeholders/ हितधारक:

- Gram Pradhan (Women & Men)/ ग्राम प्रधान (महिला एवं पुरुष)
- Panchayat Secretary (Sachiv)/ पंचायत सचिव
- Panchayat Sahayak/ पंचायत सहायक
- ASHA Worker/ आशा कार्यकर्ता
- Anganwadi Worker/ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
- ANM (Auxiliary Nurse Midwife)/ एएनएम (सहायक नर्स दाई)
- Rojgar Sevak/ रोजगार सेवक

A. Interview Guide for Gram Pradhans (Male & Female Pradhans)

A. ग्राम प्रधानों के लिए साक्षात्कार मार्गदर्शिका (पुरुष एवं महिला प्रधान)

Section 1: Background Profile / खंड 1: पृष्ठभूमि प्रोफाइल

1. Please tell us about yourself (age, gender, caste/community, education, political experience and affiliation).
कृपया अपने बारे में बताइए (आयु, लिंग, जाति/समुदाय, शिक्षा, राजनीतिक अनुभव और संबद्धता)।
2. How did you decide to contest the Gram Pradhan election?
आपने ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने का निर्णय कैसे लिया?
3. Was it your own decision, or were you encouraged by the family/community/family members?
क्या यह आपका स्वयं का निर्णय था, या परिवार/समुदाय के सदस्यों ने आपको प्रोत्साहित किया?
4. Is there any other family member who has been elected or taken part in an earlier election?
क्या परिवार का कोई अन्य सदस्य पहले चुनाव में चुना गया है या चुनाव में भाग लिया है?

Section 2: Leadership Role and Political Agency/ खंड 2: नेतृत्व भूमिका और राजनीतिक एजेंसी

1. How do you define your role as Gram Pradhan?/ What do you know about your responsibilities as a Pradhan?
आप अपने प्रधान के रूप में दायित्वों के बारे में क्या जानते हैं? /ग्राम प्रधान के रूप में आपकी क्या भूमिका है?
2. How many villages are administratively included within your Gram Panchayat?
Kindly list all the constituent villages?
आपकी ग्राम पंचायत के अंतर्गत प्रशासनिक रूप से कितने गाँव शामिल हैं? कृपया सभी गाँवों की सूची दें।
3. What is the procedure for the election of the Gram Pradhan (village head)? Please explain the electoral process?

ग्राम प्रधान के चुनाव की प्रक्रिया क्या है? कृपया चुनावी प्रक्रिया का वर्णन करें।

4. Do you possess a copy (hard or soft) of the Panchayati Raj Act, 1947?
क्या आपके पास पंचायती राज अधिनियम, 1947 की प्रति (हार्ड या सॉफ्ट कॉपी) उपलब्ध है?
5. What are the most recent amendments made to the Panchayati Raj Act, 1947?
पंचायती राज अधिनियम, 1947 में हाल के संशोधन क्या हैं?
6. What are the administrative powers vested in the Gram Panchayat?
ग्राम पंचायत को कौन-कौन सी प्रशासनिक शक्तियाँ प्राप्त हैं?
7. What financial powers and responsibilities does the Gram Panchayat exercise in local governance?
स्थानीय शासन में ग्राम पंचायत की वित्तीय शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ क्या हैं?
8. To what extent do you feel you have autonomy in decision-making?
आप निर्णय लेने में कितने स्वतंत्र हैं?
9. Do you face interference from husband/family/male members of the family/women/party leaders/village people?
क्या आपको पति/परिवार/परिवार के पुरुष सदस्यों/महिलाओं/पार्टी नेताओं/गाँव के लोगों से हस्तक्षेप का सामना करना पड़ता है?

Section 3: Governance Outcomes and Development Priorities

खंड 3: शासन परिणाम और विकास प्राथमिकताएँ

1. What is the process for selecting the beneficiary Scheme among various schemes?
विभिन्न योजनाओं में लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया क्या है?
2. Who is primarily responsible for selecting beneficiaries—Pradhan, ministry officials, or others whose projects are implemented?
लाभार्थियों के चयन की मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है—प्रधान, सरकारी अधिकारी या अन्य?
3. In your opinion, does decentralisation theory work in this context?
आपके अनुसार क्या इस संदर्भ में विकेंद्रीकरण सिद्धांत (Decentralisation Theory) प्रभावी है?
4. Do elected members behave more like representatives (or like contractors)?
क्या निर्वाचित सदस्य प्रतिनिधि की तरह कार्य करते हैं (या Contractual की तरह)?
5. What are the main development works undertaken in your Panchayat in the last 2–3 years?
पिछले 2–3 वर्षों में आपकी पंचायत में कौन-कौन से प्रमुख विकास कार्य किए गए हैं?
6. Which sectors have received maximum attention:
किन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया गया है:
 - a. Health and nutrition / स्वास्थ्य और पोषण
 - b. Education / शिक्षा

- c. Agriculture and water resources / कृषि और जल संसाधन
- d. Roads and infrastructure / सड़कें और आधारभूत संरचना
- e. Skill development and employment / कौशल विकास और रोजगार

7. How are priorities decided in Gram Sabha meetings?

ग्राम सभा बैठकों में प्राथमिकताएँ कैसे तय की जाती हैं?

8. Are public goods and infrastructural facilities equitably located in Scheduled Caste (SC) hamlets where SC populations predominantly reside?

क्या अनुसूचित जाति (SC) बहुल बस्तियों में सार्वजनिक सुविधाएँ और अवसंरचना समान रूप से उपलब्ध हैं?

9. Is there any observable difference in the pattern or level of development when the Gram Pradhan belongs to a reserve category (woman/SC/ST) compared to other social groups?

क्या ग्राम प्रधान के आरक्षित वर्ग (महिला/SC/ST) से होने पर विकास के पैटर्न या स्तर में कोई अंतर देखा जाता है?

10. Do non-elite residents feel involved and participate in local governance?

क्या गैर-एलीट (सामान्य) निवासी स्थानीय शासन में भागीदारी महसूस करते हैं?

11. What is the participation rate of villagers in gram Sabha meetings, considering intersectionality?

ग्राम सभा बैठकों में ग्रामीणों की भागीदारी दर क्या है (विभिन्न सामाजिक समूहों के संदर्भ में)?

12. How many informal education centres are functioning under the Gram Panchayat?

ग्राम पंचायत के अंतर्गत कितने अनौपचारिक शिक्षा केंद्र संचालित हो रहे हैं?

13. Is there an audit process for the National Rural Employment Guarantee Act (NREGA)?

क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA) का कोई ऑडिट प्रक्रिया है?

14. What is the new name of NREGA?

NREGA का नया नाम क्या है?

15. What is the full form of the new name of NREGA?

NREGA के नए नाम का पूर्ण रूप क्या है?

16. What is the total number of:

- a. Tube wells
- b. Metal (pucca) roads

कुल संख्या बताइए:

- a. नलकूप (Tube wells)
- b. पक्की (मेटल) सड़कें

17. Where did you obtain funding for your election campaign? Who funded you?

आपके चुनाव अभियान के लिए धन कहाँ से प्राप्त हुआ? किसने वित्तपोषण किया?

Section 4: Community Acceptance and Legitimacy

खंड 4: सामुदायिक स्वीकृति और वैधता

1. How do villagers respond to your leadership?
ग्रामवासी आपके नेतृत्व के प्रति कैसी प्रतिक्रिया देते हैं?
2. Do you feel respected as an elected leader?
क्या आप एक निर्वाचित नेता के रूप में सम्मानित महसूस करते हैं?
3. Are women leaders taken seriously by the government officials and community members?
क्या महिला नेताओं को सरकारी अधिकारियों और समुदाय के सदस्यों द्वारा गंभीरता से लिया जाता है?
4. Do you speak in the meetings?
क्या आप बैठकों में बोलते/बोलती हैं?
5. Do the people listen to you when you speak in the meetings?
क्या लोग बैठकों में आपकी बात ध्यान से सुनते हैं?
6. Are your suggestions taken positively in the meetings?
क्या आपके सुझावों को बैठकों में सकारात्मक रूप से लिया जाता है?
7. Do people take your suggestions but not give you credit?
क्या लोग आपके सुझावों को अपनाते हैं, लेकिन आपको उसका श्रेय नहीं देते?
8. Do the villagers who come to the Panchayat's meeting vary by gender of the Pradhan in power?
क्या पंचायत बैठकों में आने वाले ग्रामीण प्रधान के लिंग के अनुसार बदलते हैं?
9. Which gender is known for good leadership roles and why?
कौन सा लिंग अच्छे नेतृत्व के लिए जाना जाता है और क्यों?

Section 5: Intersectional Barriers (Caste, Class, Religion, Region)

खंड 5: अंतःसंबंधी बाधाएँ (जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र)

1. Does caste hierarchy influence Panchayat functioning?
क्या जातीय पदानुक्रम पंचायत के कार्य को प्रभावित करता है?
2. Does your community or belonging to a particular community influence your leadership?
क्या आपका समुदाय या किसी विशेष समुदाय से आपका संबंध आपके नेतृत्व को प्रभावित करता है?
3. Do women from all castes participate in the Gram Sabha meetings equally?
क्या सभी जातियों की महिलाएँ ग्राम सभा बैठकों में समान रूप से भाग लेती हैं?
4. Have you faced discrimination based on your caste/class/religion?
क्या आपने अपनी जाति/वर्ग/धर्म के आधार पर भेदभाव का सामना किया है?

Section 6: Challenges in Functioning

खंड 6: कार्य संचालन में चुनौतियाँ

1. What are the biggest challenges you face as a Pradhan?
प्रधान के रूप में आपको किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?
 - a. Financial constraints / वित्तीय सीमाएँ
 - b. Bureaucratic hurdles / प्रशासनिक बाधाएँ
 - c. Patriarchal resistance / पितृसत्तात्मक विरोध
 - d. Lack of training / प्रशिक्षण की कमी
 - e. Mobility restrictions / आवागमन की सीमाएँ
2. How do you handle political opposition or male co-option?
आप राजनीतिक विरोध या पुरुष वर्चस्व की स्थिति को कैसे संभालते हैं?

Section 7: Support Mechanisms and Capacity Building

खंड 7: सहयोग तंत्र और क्षमता निर्माण

1. Have you attended any government training programs?
क्या आपने किसी सरकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया है?
2. What role do SHGs/NGOs/civil society organisations play in supporting women leaders?
महिला नेताओं को समर्थन देने में SHGs/NGOs/सिविल सोसायटी संगठनों की क्या भूमिका है?
3. What kind of support would improve your effectiveness?
किस प्रकार का समर्थन आपकी कार्यक्षमता को बढ़ा सकता है?

Section 8: Vision and Policy Recommendations

खंड 8: दृष्टि और नीतिगत सुझाव

1. What best practices can be replicated across districts?
कौन-सी प्रभावी योजनाएँ/कार्यक्रम विभिन्न जिलों में लागू किए जा सकते हैं?
2. What changes are needed to strengthen women's leadership in the PRIs?
PRI में महिला नेतृत्व को मजबूत करने के लिए किन परिवर्तनों की आवश्यकता है?
3. Do you feel any constraints in executing or implementing something because of your gender?
क्या आपको अपने लिंग के कारण किसी कार्य के क्रियान्वयन में बाधा महसूस होती है?
4. Have you implemented any new policies in the past 2–5 years?
क्या आपने पिछले 2–5 वर्षों में कोई नई नीतियाँ लागू की हैं?

5. What are your plans for the coming year to improve functioning and development in your village?

आने वाले वर्ष में अपने गाँव के विकास और कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए आपकी क्या योजनाएँ हैं?

6. Anything else you want to share?

क्या आप कुछ और साझा करना चाहते हैं?

Section 9: MGNREGA/ खंड 9: मन्रेगा

1. What is the process of MNREGA implementation?

मन्रेगा के कार्यान्वयन की प्रक्रिया क्या है?

2. How are labourers (caste/ class/ gender ratio) identified under MNREGA?

मन्रेगा के अंतर्गत मजदूरों की पहचान कैसे की जाती है?

3. What is the new name of MNREGA?

मन्रेगा का नया नाम क्या है?

4. How many households in the Gram Panchayat currently have MGNREGA job cards?

ग्राम पंचायत में वर्तमान में कितने परिवारों के पास मन्रेगा जॉब कार्ड हैं?

5. How are MGNREGA works selected and approved in the Gram Panchayat?

ग्राम पंचायत में मन्रेगा कार्यों का चयन और अनुमोदन कैसे किया जाता है?

6. What types of works have been completed under MGNREGA in the last year?

पिछले वर्ष में मन्रेगा के अंतर्गत किस प्रकार के कार्य पूरे किए गए हैं?

7. On average, how many days of employment does a household receive under MGNREGA annually?

औसतन, एक परिवार को मन्रेगा के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितने दिनों का रोजगार मिलता है?

8. What is the process for villagers to demand work under the scheme?

इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण कार्य की मांग कैसे करते हैं?

9. How is workers' attendance recorded and monitored at worksites?

कार्यस्थलों पर श्रमिकों की उपस्थिति कैसे दर्ज और निगरानी की जाती है?

10. How long does it usually take for workers to receive their wage payments?

श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान प्राप्त करने में सामान्यतः कितना समय लगता है?

11. What major challenges do you face in implementing MGNREGA in this Panchayat?

इस पंचायत में मन्रेगा लागू करने में आपको कौन-कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ का सामना करना पड़ता है?

12. How is transparency maintained in the implementation of MGNREGA (e.g., social audits, public records)?

मन्रेगा के कार्यान्वयन में पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित की जाती है (जैसे सामाजिक अंकेक्षण, सार्वजनिक अभिलेख)?

13. In your opinion, how has MGNREGA contributed to the development of the village?

आपके अनुसार, मन्रेगा ने गाँव के विकास में किस प्रकार योगदान दिया है?

Section 10: Miscellaneous Queries/ खंड 10: कुछ अतिरिक्त जानकारी

1. Do you see differences in Panchayat functioning across districts/regions?
क्या आप विभिन्न जिलों/क्षेत्रों में पंचायत की कार्यप्रणाली में अंतर देखते हैं?
2. What powers does the gram panchayat have to utilise funds?
ग्राम पंचायत को निधियों के उपयोग के लिए कौन-कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं?
3. Is there any other official you need to obtain permission from before utilising the funds?
क्या निधियों के उपयोग से पहले किसी अन्य अधिकारी से अनुमति लेनी पड़ती है?
4. Which staff members are deputed?
कौन-कौन से कर्मचारी (स्टाफ) deputed हैं?
5. Is the rotational seat system beneficial, or does it have flaws?
क्या सीटों का रोटेशन सिस्टम लाभकारी है या इसमें कोई कमियाँ हैं?
6. Are there any community-based organisations? If so, could you name them?
क्या कोई सामुदायिक संगठन (Community Organisation) है? यदि हाँ, तो उनके नाम बताइए।
7. Is there a tax collection system on property, businesses, markets, or fairs in your gram panchayat?
क्या आपकी ग्राम पंचायत में संपत्ति, व्यवसाय, बाजार या मेलों पर कर (tax) संग्रह की व्यवस्था है?
8. What is the Fourteenth Finance Commission (FFC)?
चौदहवाँ वित्त आयोग (FFC) क्या है?
9. How many types of grants have you received?
आपको कितने प्रकार के अनुदान (grants) प्राप्त हुए हैं?
10. What role does the community play in this process?
इस प्रक्रिया में समुदाय की क्या भूमिका होती है?
11. What is the number of drinking water facilities newly constructed or repaired in recent years (e.g., public ponds, hand pumps, tube wells)? (village level)
हाल के वर्षों में पेयजल सुविधाओं (जैसे तालाब, हैंडपंप, नलकूप) का निर्माण या मरम्मत कितनी हुई है? (गाँव स्तर पर)
12. What initiatives have been undertaken in the areas of: (village level)
 - a. Biogas production
 - b. Sanitation and hygiene
 - c. Energy conservation
 - d. Construction of community buildingsनिम्न क्षेत्रों में क्या पहल की गई है? (गाँव स्तर पर)
 - a. बायोगैस उत्पादन
 - b. स्वच्छता और स्वच्छता अभियान
 - c. ऊर्जा संरक्षण
 - d. सामुदायिक भवनों का निर्माण

13. What are the programmes and policies related to Panchayati Raj?
पंचायती राज से संबंधित योजनाएँ और नीतियाँ क्या हैं?
14. What online services are being provided through the Panchayat Secretariat?
पंचायत सचिवालय के माध्यम से कौन-कौन सी ऑनलाइन सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं?
15. Through which portals are your schemes being implemented?
आपकी योजनाएँ किन पोर्टलों के माध्यम से संचालित की जा रही हैं?
16. What is VHNC (Village Health, Nutrition Committee)?
वीएचएनसी (ग्राम स्वास्थ्य, पोषण समिति) क्या है?
17. Who are the members of the Village Health Sanitation Committee?
ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति के सदस्य कौन-कौन होते हैं?
18. Who is the head of the VHNC/VHNSC?
वीएचएनसी/वीएचएनएससी का प्रमुख कौन होता है?
19. According to the Panchayati Raj, what committees are formed?
पंचायती राज के अनुसार कौन-कौन सी समितियाँ गठित की जाती हैं?
20. What is the Swamitva Yojana?
स्वामित्व योजना क्या है?
21. Under which rule or act is the role of the Pradhan (Village Head) defined?
प्रधान (ग्राम प्रमुख) की भूमिका किस नियम या अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित की गई है?
22. What are the new guidelines for conducting Gram Sabha meetings in 2025?
वर्ष 2025 में ग्राम सभा बैठकों के संचालन हेतु नए दिशा-निर्देश क्या हैं?
23. What is the role of Self-Help Groups (SHGs) in your area?
आपके क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की क्या भूमिका है?
24. Who are the members of the Land Management Committee (Bhu-Samadhan Committee)?
भूमि प्रबंधन समिति (भू-समाधान समिति) के सदस्य कौन-कौन होते हैं?
25. Do villagers believe that the panchayat has brought them tangible benefits of development?
क्या ग्रामीणों को लगता है कि पंचायत ने उन्हें विकास के ठोस लाभ प्रदान किए हैं?
26. Is there any instance of elite capture that results in the exclusion of recurring benefits for the poor?
क्या ऐसा कोई उदाहरण है जहाँ अभिजात वर्ग (elite) के कब्जे के कारण गरीबों को लाभ से वंचित किया गया हो?
27. Does the Pradhan allocate more funds to their village than others?
क्या प्रधान अपने गाँव को अन्य गाँवों की तुलना में अधिक निधि आवंटित करते हैं?
28. Are villagers aware of how much funding the gram panchayat receives and how much is spent?
क्या ग्रामीणों को यह जानकारी है कि ग्राम पंचायत को कितनी धनराशि प्राप्त होती है और कितना खर्च किया जाता है?
29. Is there a Village Education Committee (VEC) in place?
क्या ग्राम शिक्षा समिति (Village Education Committee - VEC) स्थापित है?

B. Interview Guide for Panchayat Secretary/ पंचायत सचिव के लिए साक्षात्कार मार्गदर्शिका

Section 1: Role and Responsibilities/ खंड 1: भूमिका और जिम्मेदारियाँ

1. What are your key responsibilities in the Gram Panchayat?
ग्राम पंचायत में आपकी मुख्य जिम्मेदारियाँ क्या हैं?
2. How do you coordinate with the Gram Pradhan?
आप ग्राम प्रधान के साथ समन्वय कैसे करते हैं?

Section 2: Leadership and Governance/ खंड 2: नेतृत्व और शासन

1. How does the current woman/male Pradhan work differently from previous male/woman Pradhan?
वर्तमान महिला/पुरुष प्रधान पिछले पुरुष/महिला प्रधान से किस प्रकार अलग तरीके से कार्य करते हैं?
2. Does the incumbent/sitting woman Pradhan function independently?
क्या वर्तमान महिला प्रधान स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं?
3. How common is proxy leadership in your experience?
आपके अनुभव में प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) नेतृत्व कितना सामान्य है?
4. Are women leaders treated differently compared to male Pradhans?
क्या महिला नेताओं के साथ पुरुष प्रधानों की तुलना में अलग व्यवहार किया जाता है?

Section 3: Administrative Challenges/ खंड 3: प्रशासनिक चुनौतियाँ

1. What difficulties arise in implementing the Panchayat schemes or policy?
पंचायत की योजनाओं या नीतियों के कार्यान्वयन में कौन-कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं?
2. Are there differences in governance efficiency between women-led and men-led Panchayats?
क्या महिला-नेतृत्व वाली और पुरुष-नेतृत्व वाली पंचायतों के शासन की दक्षता में अंतर होता है?

Section 4: Caste and Power Dynamics/ खंड 4: जाति और शक्ति की गतिशीलता

1. Does caste dominance affect Panchayat decisions?
क्या जातीय प्रभुत्व पंचायत के निर्णयों को प्रभावित करता है?
2. Are marginalised groups able to access schemes equally?
क्या वंचित समूह योजनाओं का समान रूप से लाभ उठा पाते हैं?

Section 5: Institutional Mechanisms/ खंड 5: संस्थागत तंत्र

1. What reforms are needed to strengthen PRI governance and women's participation?
PRI शासन और महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करने के लिए किन सुधारों की आवश्यकता है?

C. Interview Guide for Panchayat Sahayak/ C. पंचायत सहायक के लिए साक्षात्कार मार्गदर्शिका

Section 1: Daily Panchayat Functioning/ खंड 1: दैनिक पंचायत कार्यप्रणाली

1. What is your role in Panchayat administration?

पंचायत प्रशासन में आपकी क्या भूमिका है?

2. How do villagers approach Panchayat services?

ग्रामीण पंचायत सेवाओं तक कैसे पहुँचते हैं?

Section 2: Women Pradhans and Participation/ खंड 2: महिला प्रधान और भागीदारी

1. Do Pradhans actively participate in meetings and documentation?

क्या प्रधान बैठकों और दस्तावेज़ीकरण में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं?

2. Are Pradhans able to manage digital and administrative responsibilities?

क्या प्रधान डिजिटल और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को संभालने में सक्षम हैं?

3. Is there any difference in the working style of women Pradhan and men Pradhan?

क्या महिला प्रधान और पुरुष प्रधान के कार्य करने के तरीके में कोई अंतर है?

Section 3: Social Barriers/ खंड 3: सामाजिक बाधाएँ

1. What social challenges does the Pradhan face in the village?

प्रधान को गाँव में कौन-कौन सी सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?

2. How do the challenges vary by the gender and caste of Pradhans (women pradhan to men pradhan or vice-versa)?

क्या ये चुनौतियाँ प्रधान के लिंग (महिला या पुरुष) और जाति के अनुसार बदलती हैं?

D. Interview Guide for ASHA Worker/ D. आशा कार्यकर्ता के लिए साक्षात्कार मार्गदर्शिका

Section 1: Health Governance at Village Level/ खंड 1: ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य शासन

1. How does the Panchayat support health initiatives?
पंचायत स्वास्थ्य पहलों का समर्थन कैसे करती है?
2. Does the Gram Pradhan take an interest in maternal and child health?
क्या ग्राम प्रधान मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में रुचि लेते हैं?
3. Is there any attitudinal change in health initiatives because of a particular gender of Pradhan?
क्या प्रधान के किसी विशेष लिंग के कारण स्वास्थ्य पहलों के प्रति दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन आता है?

Section 2: Women Leaders and Health Priorities/ खंड 2: महिला नेतृत्व और स्वास्थ्य प्राथमिकताएँ

1. Do women-led Panchayats prioritise health and nutrition more?
क्या महिला-नेतृत्व वाली पंचायतें स्वास्थ्य और पोषण को अधिक प्राथमिकता देती हैं?
2. Are health-related funds and support accessible?
क्या स्वास्थ्य से संबंधित धन और सहायता सुलभ हैं?
3. With whom do you feel easy working: women Pradhan, or men Pradhan, and why?
आपको किसके साथ काम करना अधिक सहज लगता है: महिला प्रधान या पुरुष प्रधान, और क्यों?

Section 3: Barriers and Collaboration/ खंड 3: बाधाएँ और सहयोग

1. What challenges do you face while working with Panchayat officials?
पंचायत अधिकारियों के साथ काम करते समय आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?
2. Are women leaders supportive of frontline workers?
क्या महिला नेता फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं का समर्थन करती हैं?
3. Is there any difference in getting funds because of the Pradhans' gender, caste and class?
क्या प्रधान के लिंग, जाति और वर्ग के कारण धन प्राप्त करने में कोई अंतर आता है?

E. Interview Guide for Anganwadi Worker/ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए साक्षात्कार मार्गदर्शिका

Section 1: Nutrition and Child Development/ खंड 1: पोषण और बाल विकास

1. What role does Panchayat play in ICDS services?
ICDS सेवाओं में पंचायत की क्या भूमिका होती है?
2. Does the Gram Pradhan support the functioning of the Anganwadi?
क्या ग्राम प्रधान आंगनवाड़ी के संचालन में सहयोग करते हैं?

Section 2: Gendered Governance/ खंड 2: लैंगिक शासन

1. Do women Pradhans show greater concern for children and women's welfare?
क्या महिला प्रधान बच्चों और महिलाओं के कल्याण के प्रति अधिक चिंता दिखाती हैं?
2. Who are primarily chosen as anganwadi workers?
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के रूप में मुख्यतः किनका चयन किया जाता है?

F. Interview Guide for ANM (Auxiliary Nurse Midwife)

एएनएम (सहायक नर्स दाई) के लिए साक्षात्कार मार्गदर्शिका

Section 1: Panchayat Support in Health Services/ खंड 1: स्वास्थ्य सेवाओं में पंचायत का समर्थन

1. How does PRI governance impact health service delivery?
PRI शासन स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति में क्या भूमिका निभाता है?
2. Is there coordination in immunisation, family planning, and geriatric care?
टीकाकरण, परिवार नियोजन और वृद्धावस्था देखभाल में आपकी क्या भूमिका है?

Section 2: Leadership and Administrative Access/ खंड 2: नेतृत्व और प्रशासनिक पहुँच

1. What is your role? आपकी क्या भूमिका है?
2. What types of challenges do you face during your role play?
अपनी भूमिका निभाते समय आपको किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?
3. Are women leaders able to mobilise resources for health infrastructure?
क्या महिला नेता स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए संसाधन जुटाने में सक्षम हैं?

Section 3: Recommendations/ खंड 3: सुझाव

1. What improvements are required in the PRI-health system collaboration?
PRI और स्वास्थ्य प्रणाली के सहयोग में किन सुधारों की आवश्यकता है?

G. Interview Guide for Rojgar Sevak/ रोजगार सेवक के लिए साक्षात्कार मार्गदर्शिका

Section 1: Employment Schemes and Panchayat Role

खंड 1: रोजगार योजनाएँ और पंचायत की भूमिका

1. What is your role in MGNREGA and livelihood programs?

MGNREGA और आजीविका कार्यक्रमों में आपकी क्या भूमिका है?

2. How are job cards, wages, and work allocation managed?

जॉब कार्ड, मजदूरी और कार्य आवंटन का प्रबंधन कैसे किया जाता है?

Section 2: Gender Equity in Employment/ खंड 2: रोजगार में लैंगिक समानता

1. Do women leaders ensure better participation of women in employment schemes?

क्या महिला नेता रोजगार योजनाओं में महिलाओं की बेहतर भागीदारी सुनिश्चित करती हैं?

2. Are Dalit and backward communities receiving equal access?

क्या दलित और पिछड़े समुदायों को समान पहुँच मिल रही है?

Section 3: Governance Challenges/ खंड 3: शासन संबंधी चुनौतियाँ

1. What issues arise in implementation—corruption, delays, political pressure?

कार्यान्वयन में कौन-कौन सी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं—भ्रष्टाचार, देरी, राजनीतिक दबाव?

Section 4: Best Practices/ खंड 4: सर्वोत्तम प्रथाएँ

1. What innovative models have you seen in Panchayat employment governance?

पंचायत रोजगार शासन में आपने कौन-कौन से नवाचार मॉडल देखे हैं?

Common for All Stakeholders/ सभी हितधारकों के लिए

1. In your opinion, what makes Panchayati Raj truly democratic?

आपके अनुसार पंचायत राज को वास्तव में लोकतांत्रिक क्या बनाता है?

2. What changes are needed for gender-equitable governance?

लैंगिक समानता आधारित शासन के लिए किन परिवर्तनों की आवश्यकता है?

3. Any experience or incident that reflects the realities of women's or specific caste leadership?

क्या कोई ऐसा अनुभव या घटना है जो महिला और जाति विशेष नेतृत्व की वास्तविकताओं को दर्शाता हो?

